

གཟིགས།

༄༅། །རིན་པོ་ཆེ་དབང་གི་སྤེར་བ་བཅུ་གསུམ་པ་ལེགས་སོ། །རིན་ཆེན་ལོག་སྐྱུ་འཁྲིལ་།
འདི་འདྲི་ནང་གི་ཡི་གེ་ཆེ་ཆུང་བྱས་པ་སྐྱུ་ལ་དབང་མཁའ་ལྲུབ་དེ་མེད་ལྷུ་སྐྱུ་དང་སྐྱུ་བདེར་བསྐྱུ་ན་པ་ཡི་ནོ། །

405

ལ

། །གསུམ་ལས། དང་པོ། བཅུད་ལྷན་པ་ཅན་སྐྱབ་པ་ལ་སློབ་ཤི་མ་མེད་པ་དགོས་པས། ལྷོ། ཐོག་མར་དེ་བསྐྱབ་པའི་སྤྱིར་དབེན་ཞིང་ཡིད་དང་མཐུན་པའི་གནས་སུ་ཞི་བོའི་ཐང་ག་ལ་སོགས་པ་
 དགོན་མཚོག་གི་རྟེན་བཀའ་པའི་མདུན་དུ། མཁུལ་གྱི་དབུས་མར་མེ་ཚེ་བ་གཅིག་གི་མཐར་སྐྱང་གསལ་གྱི་སྤོང་བ་ཅི་ཙམ་འཁྱོར་པས་བསྐྱོར་བའི་མཐར་སྤྱིན་གི་མཚོད་པ་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ལེགས་པར་བཤམས་ལ། ཐམས་ཅད་
 ལྷུས་བྱས་ཏེ་གྲལ་ལ་འཁོད་པར། ལྷམས་རྣལ་འཁྱོར་པ་རྣམས་ལ། དོ་རྩེ་སེམས་དཔའི་སློམ་བཟླས་སོགས་ཡི་གེ་བརྒྱུ་པ་བརྗོད་པའི་ཚེ། ལྷམ་ཉིད་སྐྱད་ཅིག་གིས་སློབ་དཔོན་པར་སྐྱོབ་ཐོབ་ཐོང་ཅུལ་མཐིང་ནག་རྩེ་རྩེ་དང་
 སྤྱིལ་བུ་འཛིན་པའི་པང་དུ་མཁའ་ཚེན་བཟའ་མཚོ་རྒྱལ་དམར་མོ་གྱི་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པས་ཡབ་ལ་འབྱུང་པ། གཉིས་ཀ་རིན་པོ་ཚེ་དང་རུས་པས་བརྒྱན་པ། དོ་རྩེའི་སྤྱིལ་སོ་གུང་དུ་

པྱ	༄། །པའི་དངོས་གྲུབ་བསྐྱེད་ཏུ་གསོལ། །ཞུ་བཏྲ་བུ་རྩེ་ཞུ་ལོ་གཞུ་ཚ་མེ་གྲུ་ས་མུ་དྲ་སྐྱ་ར་ཏ་ས་མ་ཡེ་རྩེ། །ཞེས་བཏྲོད་ནས། །དམ་ཚིག་སྐོང་བ་ཕྱིའི་མཚོད་པའི། །འཛིག་རྟེན་འདི་འམ་གཞན་དག་	ལེ
ན།	།མེ་ཏོག་ཇི་སྟེང་ཡོད་པ་དང་། །བདག་གིས་གྲུབ་པར་བཤའ་ས་པ་འདི། །ཞི་བོར་བ་འབྱུང་ས་ཚོགས་ལ་འབུལ། །ཞུ་བཏྲ་བུ་རྩེ་ཕྱུག་ཤེ། །དེ་བཞིན་དུ། །བདུག་སྟོལ། །སྐྱེད་གསལ། །དྲི་ཚབ། །ཞལ་བཟུ།	
ལ།	།རོལ་མོ་རྣམས་གྲུང་མོ་མོའི་སྐྱེགས་དང་སྐྱེགས་སྐྱེད་ཏུ་ལོ། །དེ་ནས་སོར་རྒྱུད་པ་ནང་གི་མཚོད་པའི། །དུང་ཚོན་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་གཞལ་ཡས་སུ། །ཅུ་བརྒྱད་སྟོང་ལ་སྐྱེད་བའི་ཨ་མེ་ཏ། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་མཉེས་མཛོད་	
ལ།	།ཞི་བོར་བ་འབྱུང་ས་དགྱིལ་འཁོར་མཉེས་གྲུར་ཅིག། །ཞུ་བཏྲ་བུ་རྩེ་ཨ་མེ་ཏ་ཞུ་ལྟོ། །ཡོན་ས་རྣམ་དག་རྒྱལ་བ་མཉེས་མཛོད་ལ། །མེ་ཏོག་བདུག་སྟོལ་སྐྱེད་གསལ་སྐྱོལ་ས་ཇི། །སྐྱེགས་མོ་སྐོང་བོགས་སྐྱེ	
ལ།	།གར་ཡིད་འོང་ལ། །ཞི་བོར་བ་འབྱུང་ས་དགྱིལ་འཁོར་མཉེས་གྲུར་ཅིག། །ཞུ་བཏྲ་བུ་རྩེ་རྩེ་ཏོ་རྩེ་ཏོ་ཞུ་རྩེ། །ཞེས་པས་མཚོད་ནས། །སྐྱེགས་སྐྱེད་སྐྱེགས་སྐྱེད་མི་འགྲུར་གྱུར་ཏུ་བབས། །བདེ་བཤེགས་སྐྱེ་མ་རྣམས་ལ་སྐྱེགས་	
ལ།	།འཚོལ་བསྟོད། །ཚིག་སྐྱེགས་ལ་ཁའ་བཞིན་དུ་དབྱེར་མེད་གྲུང་། །འོངས་སྐྱེ་འཛའ་ཚོན་བཞིན་དུ་སོ་སོར་གསལ། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་མཚོག་ལ་མངའ་བརྟེས་པའི། །འིགས་ལྷ་བདེ་བར་གསེགས་ལ་སྐྱེགས་འཚོལ་	

<p>ལྟ</p>	<p>།དབང་ལ་གསུམ་ལས། སྒོན་འགྲོ་ནི། ཚོགས་གཏོར་རྒྱ་ཆེར་བཤམས་ཏེ། བདུད་ཚིའི་རྩུལ་ཁྲུལ་བྱས་ཏེ་གྲལ་དུ་འཁོད་པ་ལ་བཤམས་པ་བསྐྱེད་དེ་དེའི་ཐིག་ལེ་གནས་གསུམ་དུ་བཀོད་ནས། དངོས་གཞི་ནི་གླུ་མས། རང་ཉིད་གླུ་མ་ཡབ་</p>	<p>ལྟ</p>
<p>ལྟ</p>	<p>ལྟམ་དུ་གསལ་བཏབ་སྟེ། སྒོ་བ་མ་རྣམས་པད་གླའི་སྟེང་ན་གཡུང་དུང་འབྲིལ་བའི་སྟེང་ན་རྩྭ་ལས་རྩོམ་པ་མོ་གཅེར་བུ་གྲི་གུ་ག་དང་ཐོད་པ་འཛོན་པ་གཡོན་བརྒྱུད་གཡམས་བསྐྱུལ་པའི་རྟིང་པ་སྟབ་ལ་བཏད་པ་ནམ་མཁའི་དགྲིལ་ན་</p>	<p>ལྟ</p>
<p>ལྟ</p>	<p>ཡོད་པར་སྒོམ་དུ་བཅུག་པའི་རྩོམ་པ། གླུ་མས་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ནས་རྩོམ་པ་མོ་མཁའ་འགྲོ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་བསྐྱོར་བ་སྟུན་བྱངས་ལ། དམིགས་པ་དཔོན་དེ་སྒོ་བ་མའི་སྟེང་གར་ཐིམ་པར་བསམ་ཞིང་། གཡུང་དུང་འབྲིལ་བ་འཁོར་བ་ལ་དམིགས་པ་འཛོན་དུ་གཞུག་</p>	<p>ལྟ</p>
<p>ལྟ</p>	<p>མོ། །ཡང་ཤར་དང་། སྟོ་དང་། ལུ་དང་། བྱང་ནས། རྩོམ་པའའ་འགྲོ་དང་། རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་དང་། པརྒྱ་མཁའ་འགྲོ་དང་། ལས་གྲི་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཕྱོན་པ། སྟོ་བོར་དང་། མགྲིན་པར་དང་། ལྟེ་བར་དང་།</p>	<p>411</p>
<p>ལྟ</p>	<p>གསང་བར། ཐིམ་པར་བསམ་ཞིང་། གཡུང་དུང་འབྲིལ་བ་འཁོར་བས་ནམ་མཁའ་ནས་བུན་བུན་ཡོད་པ་ལ་དམིགས་པ་འཛོན་དུ་འཇུག། །ལྟོ་བུ་རྒྱ་ཀློང་གི་རྩྭ་རི་ནི་ས། ས་མ་ཡ་ཇོ་ཇོ། བཟོ་བྱ་ལྟོ། དེ་བཞིན་དུ། བཟོ་ རུ་</p>	<p>ལྟ</p>
<p>ལྟ</p>	<p>པརྒྱ་ ཀམ་ ས་མ་ཡ་རྒྱ་གི་རྩྭ་རི་ནི་ས་ས་ཡ་ཇོ་ཇོ། བཟོ་བྱ་ལྟོ། ལེས་བྱས་ཏུ་བཟོ་དེའི་རོལ་མེའི་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱེད་ཅིང་ཚེ་ལ་ཆེན་གྱི་དུད་པས་བདུག་གོ། །དེས་ནི་འབྲེལ་པ་དང་། ལུ་བ་དང་། འདར་བ་ལ་སོགས་</p>	<p>ལྟ</p>

གཏིང་མཛོད་རྒྱུ་མཚན་མཁའ་ལོ་སྤྲེལ་བའི་སྐུ་མཛོད་ཀྱི་མཚན་མཁའ་ལོ་སྤྲེལ་བའི་སྐུ་མཛོད་

པ་ཡེ་ཤེས་ཐེབས་པའི་རྟུགས་འོང་ངེས་སོ། །དེས་ཇེས་ཚོགས་ལ་རོལ་ཞིང་དགའ་སྟོན་དང་བཀའ་ཤིས་བྱའོ། །དེས་ནི་མཁའ་ལོ་སྤྲེལ་བའི་ཕྱིན་རྒྱལ་ས་འཇུག་ཅིང་དབང་གི་སྟོན་ཕྱིན་པས་བར་ཚད་མེད་ཅིང་དོས་གྲུབ་ཕྱན་སུམ་ཚོགས་པ་འབྱུང་ངོ་། ། །།གཉིས་པ་ལུས་ཀྱི་
སྐྱེ་བ་པ་སྐྱེད་ཞིང་སྐྱེ་བ་པའི་སྐྱེད་གྲོལ་བར་བྱེད་པ་སྟོས་བཅས་བུམ་པའི་དབང་ལ་གསུམ་ལས། སྟོན་ལགོ་ལའང་ཕྱན་མོང་བ་དང་། ཕྱན་མོང་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི་མཁའ་ལོ་སྤྲེལ་བའི་དབང་གི་རྗེས་ཉིད་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པའི། སྟོབ་མས་མེ་ཉོག་དོར་ལ་ཕྱག་
འཚམ་ཉེ་མ་གྱིན་གཅིག་ཏུ། གྱེ་ ཀུན་བཟང་རྟོ་རྟོ་འཛིན་པ་ཚེ་ ཡེ་ཤེས་ལྷ་ནི་འཕྲོབ་བྱའི་ཕྱིར་ལྷེ་ རིགས་ལྷའི་དབང་མཚོག་ལའགད་དུ་གསོལ་ལྷེ་ ཞེས་པ་གསུམ་གྱི་རྗེས་ལ་གྲམ་ལས། གྱེ་ རིགས་ཀྱི་བུ་མཚོག་བྱེད་རྣམས་
ཀྱིས་ལྷེ་ གྲམ་ལི་དམ་མཁའ་ལོ་སྤྲེལ་བའི་དབང་ལྷེ་ ཚོས་སྐྱེད་དང་ནི་རྟོ་རྟོ་འཛིན་སྐྱེད་ལྷེ་ ཚོགས་མཚོད་ཡོན་གྱིས་མཉེས་རུས་སལ་ལྷེ་ ཞེས་རྗེས་པའི་ལན་དུ་སྟོབ་མས། གྱེ་ རི་ལྷུང་ཕྱག་ས་ཀྱིས་དགོངས་མཛད་ལྷེ་ བདག་གིས་མ་
ལུས་བསྐྱེད་ལགས་པས་ལྷེ་ དཔའ་བོས་བདག་ལ་གནད་དུ་གསོལ་ལྷེ་ ཞེས་ཞུའོ། །དེས་སྟོབ་མ་རྣམས་ལི་གོ་བརྒྱ་པའི་སྟོས་བརྒྱས་ཅུང་ཟད་པེ་བྱེད་དུ་བརྟུགས་ལ། གྲམ་ལི་ཕྱག་ས་ཀའི་རྩྭ་ལས་འོད་འཕྲོས་པས་སྟོབ་མའི་སྟོང་གར་ཕོག་
པས་ལུས་ཐམས་ཅད་རྟོ་རྟོ་འཛིན་གོ་བྲལ་གྱིས་གཡོགས་པར་བསྟོལ་དུ་བརྟུགས་ལ། དཔོན་སྟོབ་ཀུན་རྩྭ་གི་སྐྱ་སྐྱ་དེ་རི་རི་བརྒྱས་པས། སྟོང་འོག་ཐམས་ཅད་རྟོ་རྟོ་འཛིན་ར་བ་གྱུར་གྲམ་རེ་མཛད་ཉི་ལྷེ་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རི་མེ་དཔུང་འབར་བའི་སྐྱེད་

<p>ལྟ</p>	<p>། །འཁོར་དར་ཅིག་བསྐྱེལ་ས་ནས། དམ་ཚིག་སྒྲིན་པའི་གླུ་མས། གྱེ་མ་རིགས་གྱི་བུ་ཁྱོད་གྱིས། དམ་ཚིག་རྒྱུད་ལ་གནས་འདོད་ན། ཐབས་འཕེས་གཉིས་གྱི་དམ་ཚིག་ཏུ། མཚན་མ་ལ་ནི་མི་འགོངས་</p>	<p>ལྟ</p>
<p>དང་།</p>	<p>དྲོ་རྩོལ་དཔོན་མལ་ཆ་དང་། དྲོ་རྩོལ་ལ་ཚུད་མི་བྱེ། དེ་ལྟར་བསྐྱུང་བར་ལུས་གྱུར་ཏེ། ཞེས་པའི་ལན་དུ་སྒྲོབ་མས། གྱེ། སངས་རྒྱལ་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ཡི། དྲོ་རྩོལ་པའི་བཀའ་བཞིན་དུ།</p>	<p>ལྟ</p>
<p>ལྟ</p>	<p>བདག་ཅག་རྣམས་འདི་བསྐྱུང་བར་འཚེལ། ཞེས་བརྗོད་དོ། །དེ་ནས་དགའ་སྟོན་བྱའོ། །༥ །།གཉིས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྟོན་འགོལ། སའི་ཚོགས་ །ལེགས་པར་བཤམས་པ། ལྷ་གོན་བྱ་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་གཞི་བདག་ལ་གཏོར་མ་</p>	<p>ལྟ</p>
<p>ལྟ</p>	<p>སྒྲིན་ལས་བསྐྱུང་སྟེ། མཚན་པ་ལྟར་དབུ་མ་བཞི་པ་ལ་ཐིམ་ཐིག་ལེ་དང་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་འདྲི་ཐི་ཐི་དེ་སྒྲི་ཕྱི། ཞེས་པས་བཀོད་ལ་རྒྱ་གཉིས་སྟོན་དུ་འགོལ་ས། མཚོན་པ་ལྟ་དང་གཏོར་མ་གསུམ་བཤམས་ཏེ། རང་ཉིད་ས་གནོན་བྱས་པའི་སྟོན་ལག་ལས་འོང་</p>	<p>ལྟ</p>
<p>ལྟ</p>	<p>ཐེང་འགྲོས་པ་སའོག་ཏུ་སོང་བས་སའི་ལྷ་མོ་བཏྱན་མ་སེར་མོ་རིན་པོ་ཆའི་བུམ་པ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ། སག་ཚོད་ལ་འཚིབས་པ་ལ་ས་བདག་གྲུ་གཉན་གྱིས་བསྐྱོར་བ་སྐྱུན་བྱངས་ཏེ་བཞུགས་པར་བསམ་པ། ལྷ་མོ་ཚོན་མོས་</p>	<p>ལྟ</p>
<p>ལྟ</p>	<p>བདག་འཛིག་ཏེན་ཡུམ། །རིན་ཚེན་རྩོགས་དབང་མཚོག་གི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན། །དོ་གཤམ་རྒྱུད་གཏུབ་སྐྱོལ་སེམས་དཔས་མཚོད། །མཚོད་ཡོན་འདི་བཞེས་འདི་དུ་གྱིན་བརྒྱབ་མཛོད། །ཞུ་འདྲི་ཐི་ཐི་དེ་སྒྲི་ས་མ་ཡ་ཇོ་ཏུ།</p>	<p>ལྟ</p>

<p>འཕྲུལ་</p>	<p>༄༅། །ཕྱིནནས། །ས་ཕྱོགས་འདིར་ནི་སྒྲོབ་དཔོན་བདག། །དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱལ་པོ་སྤྲུལ་པ་ནི། །བཞེངས་ཀྱིས་ས་འདིར་གནས་པའི་བགོགས། །འདི་རུ་མ་འདུག་གཞན་དུ་དེངས། །ཨྱོ་སྤྲུལ་ནི་</p>	<p>ལེ</p>
<p>འཕྲུལ་</p>	<p>སྤྲུལ་རྩྱུ་། །ཕྱི་རྩྱུ་ཕྱི་རྩྱུ་རྩྱུ་། །ཕྱི་རྩྱུ་པ་ཕྱི་རྩྱུ་པ་རྩྱུ་། །ཨྱོ་ཨྱོན་ཡ་རྩྱུ་། །སྤྲུལ་སྤྲུལ། །འཕྲུལ་རྩྱུ་པ་ལ། །ཅེས་བརྗོད་པ། །ཨྱོ་བརྗོད་སྤྲུལ། །སྤྲུལ་མོ་འཁོར་བཅས་གཤེགས། །བགོགས་བསྐྱད་ནས། །ཕྱོམོ་དང་རུས་པ་ལ་སོགས་པ་</p>	<p>ལེ</p>
<p>འཕྲུལ་</p>	<p>བསལ་ནས་ས་མཉེན་བཟང་པོའི་སྤྱོགས་བྱའདོམ་གང་བལ་སོགས་པ་རི་རྩྱུ་འོས་པ་མེ་པོང་གི་དོས་རྩྱུ་སྒྲོམས་པ་ལ་འཕྲུལ་དང་བྱང་རྩྱུ་ཟད་གཞོལ་བའི་སྤྱོང་དང་ཁོར་ཡུག་ཏུ། །ལག་མཐོལ་གཡས་པས་བསྐྱོར་ཞིང་། །ཨྱོ་རྩྱུ་རྩྱུ་རྩྱུ་པ་ལ། །ཅེས་བརྗོད་པས། །ལག་</p>	<p>ལེ</p>
<p>འཕྲུལ་</p>	<p>པ་ལས་འོད་ཟེར་བྱུང་ནས་ས་དག་པ་སྤྲུངས། །ཨྱོ་བྱུ་ཁི་ཞེས་བརྗོད་པས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ནས་ས་ལའར་བྱུར། །ཨྱོ་མེ་རྩྱུ་ནི་བརྗོད་སྤྲུལ་སྤྲུལ་རྩྱུ་རྩྱུ་པ་ལ་ཀྱིས་ས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་རྗོད་པོའི་དང་བཞིན་དུ་བྱུར། །ཨྱོ་བརྗོད་རྒྱ་རྒྱ་རྩྱུ་གིས་</p>	<p>ལེ</p>
<p>འཕྲུལ་</p>	<p>བསྤྲུང་ཞིང་བརྗོད་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་རྗོད་པོའི་བྱུ་འདོན་པས་རྩྱུ་གི་སྤྲུ་བྱང་ཞིང་། །རྗོད་པོའི་གར་བསྤྲུར་བས་རྒྱང་པ་གཡས་བསྤྲུལ་གཡོན་བརྒྱུང་བ་དང་དོར་སྤྲུབས་སྤྲུ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བསྐྱོར་ཞིང་ཕྱོགས་འོད་པོའི་དམིགས་པ་གསལ། །རྗོད་པོའི་བྱུ་དཔུང་མགོར་བོད་དུག་གདེངས་</p>	<p>ལེ</p>
<p>འཕྲུལ་</p>	<p>པ་སྤྲུར་བྱ་བ་དང་། །འཁོར་ལོ་སྤྲུར་བསྐྱོར་བ་དང་། །མདའ་སྤྲུར་འཕངས་པ་དང་། །ཕྱོགས་སྤྲུ་སྤྲུར་བཀུག་པ་དང་། །ཞགས་པ་སྤྲུར་འཕངས་པ་དང་། །གཙོ་བོ་སྤྲུ་དང་སྤྲོ་མ་བཞིའི་སྤྲུགས་སྤྲུ་ནི་དང་བཅས་པ་བརྗོད་དོ། །ལའི་ཚོ་གའོ། །དེ་ལང་བསྤྲུང་སྤྲུས་དང་།</p>	<p>ལེ</p>

